

30th August, 2025

<p>Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051</p> <p>NSE Symbol: SPLIL</p>	<p>Listing Department BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001</p> <p>Scrip Code: 532651</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subject- Copy of notice published in newspaper

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the notice published in the requisite newspapers regarding opening of a special window for re - lodgment of transfer request of physical shares of the Company.

Please take it on your record

Thanking You

Yours faithfully,
For, **SPL Industries Limited**

Vishal
Srivastava

Digitally signed by
Vishal Srivastava
Date: 2025.08.30
16:24:59 +05'30'

Vishal Srivastava
(Company Secretary &
Compliance Officer)

Manibhavnam Home Finance India Private Limited

APPENDIX IV(rule 8 (1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property))

Whereas the Authorized Officer of Manibhavnam Home Finance India Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as "MBHF"), MBHF, which has duly been Authorised by the Central Government, vide a notification dated 17.06.2021, to be treated as Financial Institution, for the purposes of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, having its Registered office at 2nd Floor, N-2, South Extension, Park-1, New Delhi-110049, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice to the following(Borrower) & (Co-Borrower) to repay the amount mentioned in the notice along with the applicable interest and other charges within Sixty (60) days from the date of the receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount & therefore Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on or after sub-section (4) of section 13 of the Act. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to the charge of MBHF at the applicable interest and other charges. The attention of Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Name and Address of Borrower/Co-Borrower/Guarantor: Mrs. Shalu Yadav, Mr. Sumit Yadav & Mr. Babu Ram Yadav All At :- Date of Demand Notice: 28th May, 2025 Loan Account No: HL000000010649 Amount of Demand Notice: Rs. 2889449.63/- As On 31.05.2025 Description Of Immovable Property:-All that the Ploes & Parcel Property bearing Property Bearing Nagar Nigam No. 104/30 New No. 155/14 Situated At/Ansari Marg Machi Bajar, Tehsil And District Dehradun, Uttarakhand, Pin Code - 248001 Addressing: 148.64 Sq. Yards. Bounded By: East: 36.6' Property of Fajir Chand West: 34' Property of Safri North: 42' Property of Sh. Arun Kalra South: 12' Rasta after that Property of Fajir Chand 40' Possession Taken On 28.08.2025 At Dehradun

Date :- 30.08.2025 Authorised officer
Place :- Dehradun, Manibhavnam Home Finance India Private Limited

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No. 167-168, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015.
Branch Office: F8, First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Sector 4, Vajshali, Ghaziabad, 201019 Email: auction@hindujahousingfinance.com

RRM - AMIT KAUSHIK, ALM - ARUN MOHAN SHARMA
CLM - DHIRUVA VASHIST - Mob. No. 9802967651

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledgement due to you which has been returned undelivered / acknowledgement not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on an on day as per Sec. 13(4) of the Act in case of you failure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharged liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred by section 13(4) of SARFAESI Act while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

Sl.	Borrower(s)/Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date & Amount
1.	DOLSID/SLD/A000000622 Mr. JAY PRAKASH MR. VIKAS TOMAR GALAND 1 HAPUR, HAPUR GHAZIABAD 245101, Metro, HAPUR, Uttar Pradesh, India - 245101	25.08.2025 & Rs. 815018 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
2.	DLNKR/KRBN/A000000814 Mr. Rahul Kumar, Mrs. Pooja Tyagi Kharsa NO-29, 00, Vill-Mohammadpur Kadin, Modinagar, Metro, Modinagar, Uttar Pradesh, India-201204	25.08.2025 & Rs. 1478863 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
3.	OLNMR/RVHR/A000000218 Mr. Mukesh Mukesh, Mrs. Naeetu, Dharanpur Begumabad Budana, Modinagar, Ghaziabad, Jp-201204, Modinagar, Ghaziabad, UP-201204, Metro, Ghaziabad, East: As per Technical West: As per Technical North: As per Technical South: As per Technical	25.08.2025 & Rs. 812783 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
4.	DLNCRU/GHAU/A000002126 Mr. AYUSH SHRIVASTAV, Mr. NEEETA VERMA, 1275C 2nd FLOOR PINEWOOD ENCLAVE SEC-2 WAVE CITY GHAZIABAD.	25.08.2025 & Rs. 2572946 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
5.	GZCHN/CPN/LDA00000438 Mr. AMIT KUMAR, Mrs. ALKA ALKA, HUSHPUR MODINAGAR KRISHAN KUNG, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201204	25.08.2025 & Rs. 1465434 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
6.	GZMNR/MNIR/A000000098 Mr. Ravi Aggarwal, Mrs. Vaishali Vaishali No 46 shiv chowk, Main Market Govindpur Modinagar, Metro, Modinagar, Uttar Pradesh, India - 201204	25.08.2025 & Rs. 1000091 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
7.	DLNCRU/GHAU/A000000090 Mr. PAPPU PAPPU, Mrs. REETU RANI, GALI NO 3 00, GALI NO 9 BHANDARA PURI CHUNA BHATTI MODINAGAR, CHUNA BHATTI, Metro, Modinagar, Uttar Pradesh, India - 201204	25.08.2025 & Rs. 636624 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025
8.	DLNCRU/GHAU/A000000090 Mr. PAPPU PAPPU, Mrs. REETU RANI, GALI NO 3 00, GALI NO 9 BHANDARA PURI CHUNA BHATTI MODINAGAR, CHUNA BHATTI, Metro, Modinagar, Uttar Pradesh, India - 201204	25.08.2025 & Rs. 636624 as on 25.08.2025 NPA Date :- 04.09.2025

Date: 30.08.2025 Authorised Officer
Place: Ghaziabad, Hinduja Housing Finance Limited

MegaCorp

MEGA CORPORATION LIMITED

CIN: L65100DL1985PLC082375

Registered Office: 62, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi - 110020 Phone: +91-11-46557134
E-mail: info@megacorppltd.com Website: www.megacorppltd.com

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Pursuant to the General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 read with General Circular Nos. 09/2023, 10/2022, 21/2021, 14/2020, 17/2020, 20/2020, issued by Ministry of Corporate Affairs read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India read with the circulars issued earlier on the subject (hereinafter collectively referred to as the "Circulars"), notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Mega Corporation Limited will be held on Monday, the 29th day of September, 2025 at 02:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility deemed to be conducted at the Registered Office of the Company in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) read with Circulars to transact the business as set out in the Notice of 40th AGM.

2. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 and dispatch thereof will be sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories/ RTA. Members are requested to register/ update their e-mail address for receiving notice/ all communications including Annual Report for the financial year 2024-25 & being sent at the registered e-mail address of the Members. Notice of AGM and Annual Report has also been uploaded on the websites of the Company at <https://megacorppltd.com>, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Further, a letter containing the weblink of the annual report for the FY2024-25 is being sent at the registered address of the member whose e-mail address is not registered with the Company/ RTA/ Depository participant(s).

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 22nd September, 2025 being the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting period commences on Friday, 26th September, 2025 (9:00 A.M. IST) and ends on Sunday, 28th September, 2025 (5:00 P.M. IST). Remote e-voting facility shall be blocked thereafter. The facility of e-voting will also be made available at the AGM through VCO/AVM and Members attending the meeting through VCO/AVM, who have not cast their votes by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The manner of voting by remote e-voting/e-voting at AGM is provided in the Notes forming part of the Notice of AGM.

4. **Manner of registering / updating e-mail addresses:**
Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participants and in respect of shares held in physical form by sending the Company's Registrar & Share Transfer Agent, MUFJ Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Phone No: 011-49411000, E-mail: delhi@n.mps.mufj.com.

5. **Manner of Casting Vote(s) through Remote E-voting / E-voting at AGM**
i.) The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("remote e-voting") provided by MUFJ Intime India Private Limited (RTA). Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and e-mail addresses in their demat accounts in order to access e-voting facility.
ii.) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and those Members, who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote at the AGM.
iii.) The detailed procedure for remote e-voting and voting at AGM will be provided in the Notice of AGM.

6. Members are requested to carefully read the Notes of Notice of 40th AGM as mentioned in the Annual Report for detailed information regarding AGM, Remote e-voting/e-voting at AGM and related matters.

For Mega Corporation Limited
Sd/-
(Shashwat Chaudhary)
Company Secretary cum Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 29th August, 2025

SPL Industries Limited

CIN: L74899DL1991PLC062744

Regd. Office: 202, 2nd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaji, New Delhi: 110019 | Phone: 0129-4282375
E-mail: cs@splimited.com, Website: www.splimited.com

NOTICE

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of SPL Industries Limited ("the Company") are hereby informed that a special window is open for a period of six months, from July 07, 2025 to January 06, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares of the company.

This facility is available for Transfer Deed(s) lodged prior to April 01, 2019 and which were rejected/detained/not attended due to deficiencies in documents/process or otherwise. Shareholders of the company who have missed the earlier deadline of 31st March, 2021 are encouraged to take the advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the company's Registrar and Transfer Agent i.e. Kfin Technologies Limited at Plot 31-32, Selenium, Tower B, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032

Note: All the shareholders are requested to update their E-mail id(s) with Company/RTA/Depository Participants.

For SPL Industries Limited
Sd/-
Vishal Srivastava
Company Secretary

Place - Faridabad
Date - 29.08.2025

PUBLIC SUMMONS

IN THE AHMEDABAD CITY CIVIL COURT AT AHMEDABAD

CIVIL SUIT No. 718 of 2021

Plaintiff Advocate- P.C.Gandhi Exh. 28

Plaintiff:- Shri Kamlesh Kallidas Shah

V/s.

Defendant:- 4) Investor Education & Protection Fund (Ministry of Corporate Affairs) (IEPF)

Address: Ground Floor, Jivan Vihar Building, 3, Sansad Marg, New Delhi-110001.

Suit Valued at Rs. 600/- for Declaration and Permanent Injunction

Whereas you the Defendants No. 4 is hereby informed you that the summons issued against you by this Court through bailiff and varies mode of service has returned unserved subsequently, and as your current whereabouts are unknown, Hence in the consequence Plaintiff's advocate has given application vide **Exh. 26** and Court ordered on it therefore this summons is published.

Therefore, You the Defendant No. 4 is hereby summoned to appear in this court in person or by a pleader duly instructed, and able to answer all material question - relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able answer all such question on the day of **01/10/2025** at 11-00 O' Clock in the forenoon to answer the claim, and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the suit, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned the suit will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Court On **this 19th day of August, 2025.**

(Altafuzen M. Vora) (Karik B. Khambholja)
Prepared by Registrar
Assistant Bench Clerk Grade-I City Civil & Sessions Court,
Superintendent Bhadra, Ahmedabad.

HINDUSTAN TIN WORKS LIMITED

REGD OFFICE: 426, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi-110025
Website : www.hindustantintin.biz Contact No. : +91 11-49998888
CIN: L27109DL1958PLC03006 Fax No. : 011-49998822

Shaping a canvironment friendly future

NOTICE TO THE MEMBERS OF 67TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Sixty Seventh (67th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hindustan Tin Works Limited ("Company") will be held on Friday, September 26, 2025 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA General Circulars No. 14/2020, dated 08th April, 2020, No. 17/2020, dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 05th May, 2020, No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 21/2021 dated 14th December, 2021 and No. 2/2022 dated 05th May, 2022, No. 10/2022 dated 28th September, 2022, No. 09/2023 dated 25th September, 2023, No. 09/2024 dated 19th September, 2024 (MCA Circulars) and SEBI circulars No. 2020/79 dated 12th May, 2020, No. 2021/11 dated 15th January, 2021, No. 2022/079 dated 03rd June, 2022, No. 2023/4 dated 05th January, 2023, No. 2023/167 dated 07th October, 2023, No. 2024/133 dated 03rd October, 2024 (SEBI Circulars) (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as "Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with Circulars, the Notice of the 67th AGM along with the Annual Report for FY2024-25 ("Annual Report") has been sent by email to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The requirements of sending the physical copy of Annual Report to the Members have been dispensed with vide the aforesaid MCA and SEBI Circulars. Additionally, a letter indicating the weblinks of the Annual Report and the Notice of the AGM are being sent to the Members whose email IDs are not available with the RTA/Company/Depositories/Depository Participants.

The Notice of the AGM and Annual Report are being made available on the Company's website at www.hindustantintin.biz and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evoting.cdsi.com.

Pursuant to Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations and SS-2, the Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by CDSL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VCO/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VCO/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VCO/OAVM are being provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 23rd September, 2025 (9 a.m.) and ends Thursday, 25th September, 2025 (5 p.m.). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 19th September, 2025 may cast their vote electronically. Members who have not cast their vote through remote e-Voting shall be allowed to vote at the ensuing AGM through e-Voting system. Members who have cast their vote by e-Voting shall not be entitled to cast their vote again at the AGM, however, such Members will be entitled to attend the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder of the Company after sending the Notice of the AGM and holding shares as on-cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 20th September, 2025 to Friday, 26th September, 2025 (both days inclusive). Members whose email IDs are already registered with the Company/Depositories, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of the AGM. Members whose e-mail IDs are not registered with the Company/Depository participants may follow the below process for registering or updating their email IDs for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically. Upon successful registration of email ID, the login ID and password for e-Voting shall be shared on the member's registered email ID.

1. Demat holding: Members holding Equity Shares of the Company in electronic/demat form and who have not registered their email IDs are requested to register their email IDs for receipt of Notice, Annual Report and the login details for joining the AGM through VCO/OAVM facility including e-voting with their DP's only, as per the process advised by their DP's. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

2. Physical holding: Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their email IDs and/or Bank details may register their details with Company's RTA, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd.

For detailed instructions pertaining to e-Voting and joining the Meeting through VCO/OAVM, Members may refer to the Notice of 67th AGM.

The results of the e-Voting along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL. The Company shall simultaneously forward the results to the BSE Limited where the equity shares of the Company are listed. This notice is issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with above mentioned Circulars.

For Hindustan Tin Works Limited
Sd/-
Rajat Pathak
EVP (Finance) & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 29, 2025

Hundreds of Products... One Can!

INNOVATIVE CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD

22, 1st Floor Central Market, Community Center, Ashok Vihar, Delhi-110028
Phone: 911-27135143, 27135144, 47023759
Fax: 911-27135143 Email: innovativeurbanbank@gmail.com
Website: www.icubank.in

IMPORTANT NOTICE

All the respected shareholders of Innovative Co-operative Urban Bank Ltd. are hereby informed that a Special General Body Meeting of the bank will be convened on 15th September 2025, Monday at 4.00 pm at the registered office of the Bank. All the members are cordially invited to attend the meeting on the above date at the appointed time and place

AGENDA OF MEETING

To consider and approve the Scheme of Merger of Innovative Co-operative Urban Bank Ltd., with Adarsh Mahila Mercantile Co-operative Bank Ltd. Muzaffamagar (UP 251001).

Vice Chairman
Innovative Cooperative Urban Bank Ltd

ANAND RATHI

Anand Rathi Global Finance Limited, Express Zone, A Wing, 8th Floor, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India
Mobile: 9820634820 | Website: www.rathi.com

REDEMPTION NOTICE

To, Dated: 28/08/2025

(1) M/s. B K C GARMENTS LLP (Borrower), Block-E, Plot No. 212, Sector-63, Noida/Gautam Buddha Nagar, 201309 Uttar Pradesh

(2) Mrs. SHWETA KHANDELWAL (Co-Borrower), Flat No. 4124, Tower No. 4, ATS Advantage, Indirampuram, Ghaziabad-201014.

(3) Mr. GORAV KHANDELWAL (Co-Borrower), Flat No. 4124, Tower No. 4, ATS Advantage, Indirampuram, Ghaziabad-201014.

(4) M/s. Oras India (Co-Borrower), Block-E, Plot No. 212, Sector-63, Noida Gautam Buddha Nagar, 201309 Uttar Pradesh.

SUB: Redemption Notice of 30 days for redeem/sale of immovable assets under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with proviso to rule 8 (6) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

REF: Loan Account No. APPL00009408

Dear Sir/ Madam,

This has reference to all earlier legal action initiated by Anand Rathi Global Finance Limited for the purpose of enforcing the secured asset for recovery of outstanding dues in exercise of power under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Rule made there-under. You have failed to make payment towards the discharge of your liabilities to the Loan Account No. APPL00009408 it is proposed to sell the below mentioned immovable secured asset through E-Auction or Private Treaty under the provisions of the SARFAESI Act, 2002. It is again brought to your notice that possession of the property will be taken once the Order is received from the Court.

This notice is given to you the addressees in compliance of rule 8(6) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 towards the right to redemption under SARFAESI Act by paying the outstanding dues by you with cost and charges and expenses and further contractual interest till payment, due and payable against your loan account at any time on or before 30 days from this notice as the present notice would end on expiry of 30 days from the date of receipt of this Notice and you are hereby informed and notified that the said property in question shall be sold by way of e-auction or through private treaty. It may be added that an amount Rs. 2,55,56,400/- (Rupees Two Crore Fifty Five Lakhs Fifty Six Thousand Four Hundred Only) as per the Demand notice under sub-section 2 of section 13 of SARFAESI Act 2002 dated 11/06/2025 is outstanding and payable along with further contractual interest till payment, due and payable against your loan account, which you may please take a note of.

Description of the property:
Property Address: Land No. 212, Area Measuring 250 Sq. Meter, Block-E, Sector-63, Within New Okhla Industrial Development Area, District Gaudh Budh Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh, India, bounded as follows: By North- Plot No, E-211, By South-Plot No, E-213, By East-Road 18 Mtr, By West- Plot No, E-205.

For and on behalf of
Anand Rathi Global Finance Limited
Authorized Officer

APM INDUSTRIES LIMITED

ISIN:503001-2000

Regd. Office: SP-147, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, District Khairthal-Tijara, Rajasthan-301019
Corporate Office: 910, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019
E-mail: cs@apmindustries.com, Website: www.apmindustries.co.in
CIN No: L27015RJ1973PLC015019, Phone No: 011-26441015-18

NOTICE OF THE 51ST ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting ("AGM") of APM Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 24, 2025 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses, as set out in the Notice convening the 51st AGM of the Company. The deemed venue of the meeting shall be the Registered Office of the Company.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 20/2020 dated May 05 2020, 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024 issued by SEBI, along with other applicable Circulars issued by the MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the AGM of the Company will be held through VCO/OAVM.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 has been electronically sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company and/or Depository Participant(s) ("DPs"). Additionally, the Company has also sent letters providing the weblink, indicating the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered with the Company/DP in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations. The aforesaid documents are also available on the Company's website at <https://www.apmindustries.co.in/investors/reports-returns/annual-report/>, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering/updating email address, mobile number and bank account mandate

Members whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice.

Members who have not registered their email IDs, are requested to register the same for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process mentioned below:-

- Members holding equity shares of the Company in physical form may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited at parveen@skylinertat.com. Members may download the prescribed Forms from the Company's website at <https://www.apmindustries.co.in/investors/updation-of-kyc-details-compulsory-issue-of-shares-in-demat-entitled-form>.
- Members holding equity shares of the Company in demat form are requested to approach their respective DP and follow the process advised by DP.

Instructions for remote E-voting and E-voting during AGM

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations as amended, read with the circulars issued on time to time, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. All the Members are informed that:

- The businesses as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.
- The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 17, 2025. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice.
- The person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the Company sends the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, September 17, 2025, may obtain the User ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or admin@skylinertat.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID for casting their vote. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting the votes.
- The remote e-Voting period commences at 09:00 A.M. (IST) on Sunday, September 21, 2025 and ends at 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, September 23, 2025. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the AGM.
- The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those Members participating at the AGM & who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM.
- The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VCO/OAVM is provided in the AGM Notice and also available on the Company's website at <https://www.apmindustries.co.in/investors/reports-returns/annual-reports/> and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User ID and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice.
- In case of any queries related to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ravi Sharma (FCS No. 4468, C.P. No. 3668), and/or Ms. Suman Pandey (FCS No. 7606, C.P. No. 8404) Partners of M/s. RSM & Co. Company Secretaries, has been appointed as scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner.
- The Results shall be declared within stipulated time under applicable laws and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company at www.apmindustries.co.in, NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall be communicated to BSE Limited at www.bseindia.com.

For APM Industries Limited
Sd/-
Neha Goel
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 29.08.2025

GOVERNMENT OF MEGHALAYA

OFFICE OF THE DIRECTOR OF HEALTH SERVICES

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH (DME), MEGHALAYA,

PASTEUR HILLS, SHILLONG

Email ID: pasteurinstitutehill@gmail.com
Tel. Ph. No.: (0364) 2591510/9485106663
No. DHSME&R/USTM/MBBS/2025/7046
Dtd. Shillong, the 27th August, 2025

NOTICE

Online Application for 2nd Round counselling for Admission to 1st year MBBS courses to the P.A. Sangma International Medical College & Hospital, Ri-Bhoi, Meghalaya against State Quota, Management Quota and NRI Quota for the Academic Session 2025-26 is hereby invited with effect from 28th August 2025 at 5:00 PM.

For details visit website: www.meghealth.gov.in

- Date of commencement of online application: 28th August 2025 at 5:00 PM.
- Last Date of online submission: 1st September 2025 at 5:00 PM.

Sd/- Director of Health Services
Medical Education & Research (DME),
Pasteur Hills, Meghalaya, Shillong

MIPR No.: 1484
Dtd. : 27/08/2025

UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED

Registered Office: Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
Corporate Office: Centrum House, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400 098

DEMAND NOTICE U/s. 13 (2)

UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules")

The undersigned being the Authorized Officer of Unity Small Finance Bank Limited ("Bank") under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice (s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following Borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. As some of the notice(s) are not served as per postal remarks, hence said notice(s) are being served upon the Borrower(s) by way of alternative mode of service i.e. through publication in News Papers

Sl.	Loan Account Details	Secured Assets
-----	----------------------	----------------

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सीआरओ : एल/4899/सीओएन/99/1एलसी062/744
 पंजी. कार्यालय : 202, द्वितीय तल, विक्रमदिया टावर, अलकनन्दा मार्गिट,
 कलाकाजी, नई दिल्ली-110019। फोन : 0129-4282375
ई-मेल : cs@spllimited.com, वेबसाइट : www.spllimited.com

सूचना
औद्योगिक प्रेरणार्थक कार्यक्रम 2025
प्रत्युत प्रस्तुत करने हेतु विशेष विंडो

सेबी परिपत्र सख्खा सेबी (एचओ/एसआईआरएस/एसआईआरएस-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97) दिनांकित 02-07-2025 के अनुसार, एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (‘कम्पनी’) के शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सीक्रेट शेरार्थ के हस्तांतरण अनुरोध पुनः प्रस्तुत करने की सुविधा हेतु 07 जुलाई, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक छह माह की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

यह सूचना : अप्रैल, 2015 से पहले प्रस्तुत किए गए हस्तांतरण विवेकों के लिए उपलब्ध है जिन्हें दर्ताजिर्नी/विंडिया में करियेथ या अन्य कारणों से अस्वीकार/वापस कर दिया था।/उन पर विवाद नहीं किया था। कम्पनी के जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 की मई तिथि तिमासी सहीना में सूक्त कर गए हैं, उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण प्रेरक, नानक, केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, फ्लॉर 31-32, सेलेनियम, टावर डी, गायीबावदी, विशेष जिला, नगरपालिका, हदरगबाद-500032 के पास आवश्यक दर्ताजिर्नी जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

नोट : सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कम्पनी/आरटीपी/डिजिटल शीट प्रतियां विंडो के साथ अपनी ई-मेल आईडी अवकाश करें।

वास्तु एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता. :-
स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 29-08-2025

विकास श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव

हिंदुस्तान एक्झेसिव लिमिटेड
 सीआईएन: L74899DL1968PLC031191
 रजि. ऑफ: बी-218, साफदरजग एक्सेलेव, नई दिल्ली-110029
 फोन: 011-41650347, फैक्स: 011-26191358,
 ईमेल: accounts@hindustaneshives.com, वेबसाइट: www.bagla-group.com

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की सेबीसूची (37वीं) वार्षिक आम बैठक कोपरेट मामलों के मंत्रालय (एससीए) द्वारा जारी 19 सितंबर 2024 के सामान्य परिपत्र सूचना 08/2024, सेबी द्वारा जारी 3 अक्टूबर 2024 के परिपत्र और एम्प्लॉय और सेबी (प्राधिकृत) द्वारा जारी किए गए ए/एस एलए प्रापकों के साथ प्रतिष्ठित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए विनियम और सेबी (सूचीबद्धता याचिका और प्रस्टीकेशन आवधिककरण) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार पालन के एक सामान्य सूचना पर सर्वसम्मति की नीतिगत अपेक्षित कि, मॉडल फॉर्म, 30 सितंबर, 2025 को शां 5000 बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (सीसी)/अन्य ऑनलाइन विड्युअल जॉइंट (ओवीएन) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

विकास रिपोर्ट 2024-2025 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिन्हें ई-मेल पते उपरोक्त एससीए पर एजीएम के सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी-डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। सर्वस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 कंपनी की वेबसाइट www.bagle-group.com और कंपनी की स्टडीएस एसएसएस वेबसाइट www.besindia.com पर ही उपलब्ध होगी। सर्वस्य केवल वीसी/ओवीएन सूचना के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निदेश कंपनी की सूचना में दिए गए हैं।

वीसी/ओवीएन के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कर्तव्य की गणना के उद्देश्य से पंजीन प्राप्त जाएगा।

हम उस सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, ताकि बिना किसी रुकावट के सभी सूचना प्राप्त हो सके। रि/कोई सही ईमेल पते अपडेट करने से हमें आपसे, विशेषकर इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रभावी तरीके से संवाद करने में सहायता मिलेगी।

इस प्रयोजन के लिए, हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अपने ईमेल पते और शराही खता सत्यापन (सी) अपडेट नहीं किए हैं, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर और अपने पैन कार्ड/आधार/कैश पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की ख-रखापति प्रति के साथ अपना फोटो अपलोड करें/डीपी/कलॉर आर्ट, प्रमाणपत्र सूचना, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का उत्तर ले सकते हुए इस अपडेट कर

डिजिटल फॉरेन्सिक : डिजिटल फॉरेन्सिक शिप करने वाले सदस्यों और विद्यार्थियों अपने ईमेल को पंजीकृत नहीं किए हैं, वे लिंक: https://web.mufakelinktime.co.in/EmailReg/Email_Register.htm पर क्लिक करें और उसमें निदेशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कंपनी के जेनरलर और शेरधारकों एड्रेस पंजीकृत पर्यवृत्त एप्लीकेशन इंस्टालेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास ईमेल अडॉप्ट करने से पंजीकृत कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य delhi@in.mpmc.mufga.com पर मेसर्स एप्लीकेशन इंस्टालेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक ईमेल भेज सकते हैं। यथास्थिति का जवाब दिया जाता है कि आइके डीआई में ईमेल पोस्ट और बैक विवरण के आधार पर पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य gnofices@in.mpmc.mufga.com पर लिख सकते हैं।

नीतिक होलिडय	<p>नीतिक रूप में कंपनी के इतिहासी घरेलू रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते और/या बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं कराया है, वे हैक: https://web.mufglinkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके और उसमें निर्दिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कंपनी के रोज़िकर और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेंसर्स एम्यूएफएफ़ी इन्टराइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास इसे पंजीकृत कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य delhi@in.mnps.mufa.com पर सेंसर एम्यूएफ़ी इन्टराइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक ईमेल भेज सकते हैं।</p>
<p>यह आपकी जानकारी और सिकॉर्ड के लिए है। उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संपर्क करें मेंसर्स एम्यूएफ़ी इन्टराइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड</p>	<p>नोबल हाइड्रेड, प्रमथ तल, लोत न. एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएएससी, सावित्री मार्केट के पास, जलेश्वर, ईट दिल्ली-110058</p>
<p>फोन: 011-41410592 / 93/94, टेलीकॉम: 011-41410591, ईमेल: delhi@in.mnps.mufa.com</p>	

हिंदुस्तान एडटेक्स्ट लिमिटेड
की ओर से व रन्ही के लिए
रक्ता /-
मधुसूदन बागला
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन-01425646

Dixon®
The brand behind brands
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED
CIN: L32101UP1993PLC086581
Regd. Office: B-14 & 15, Phase-II, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201305
E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com , Website: www.dixoninfo.com ,
Ph. No.: 0120- 4737200

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

1. **NOTICE** is hereby given that the 32nd (Thirty-Second) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Dixon Technologies (India) Limited ("Company") will be held on **Tuesday, 23rd September, 2025** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility at 11:00 A.M. (IST) (without the physical presence of the Members at the AGM venue to transact the businesses as set out in the Notice of 32nd AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, read with the Circulars issued in this regard and Circular No. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2024-25/133 dated 31st October, 2024 and other applicable Circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "Circulars") permitted holding of the AGM through VC/ OAVM without the presence of the Members at a venue. In compliance with the Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the 32nd AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

2. In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of 32nd AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 comprising of the Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2025 will be sent electronically by email to Members whose e-mail addresses are registered with the Company's RTA ("RTA" (Kfintech Technologies Limited) or their respective Depository Participant ("DP") (Kfintech Technologies Limited) or the AGM through the VC/OAVM facility only. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed vide the aforesaid Circulars. However, pursuant to the provisions of Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, a letter providing the web-link for accessing the Annual Report will be sent to those Members who have not registered their email addresses. Also, the physical copies of the Notice along with the Annual Report for FY 2024-25 shall be sent to those Members, who request the stock exchange [InvestorRelations.dixonindia.com/](https://investorrelations.dixonindia.com/).

The instructions for joining the 32nd AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting of the vote through e-voting system during the 32nd AGM will be provided in the Notice of the 32nd AGM of the Company which will be sent to the Members in due course. Additionally, the Annual Report along with the Notice of the 32nd AGM will be made available on the website of the Company at www.dixonindia.com/; the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, as well as on the website of the RTA at <https://rtat.kfintech.com> and the Company's website at the 32nd AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum of the AGM under Section 103 of the Companies Act, 2013.

3. **Update on Dividend-** The Board of Directors of the Company at its meeting held on 20th May, 2025 recommended a final dividend of INR 8/- (Rupees Eight Only) per equity share of face value INR 2/- (Rupees Two Only) each for the financial year ended 31st March, 2025. The dividend, as recommended, if approved at the AGM, will be paid to eligible Members within 30 days of its declaration.

Further, SEBI has made it mandatory to use the bank account details furnished by the Members and the bank account details maintained by the Company's RTA for payment of Dividend to the Members electronically. The Members holding shares in Physical mode shall be paid dividend only through electronic mode subject to their folios being KYC compliant as per the SEBI requirements.

4. **Registration/Update of email and bank account-** Members who wish to register/update their Email IDs and/or update bank account mandate, are required to follow the below instructions:

- **For shares in Physical mode:** Register/update the details with the Company's RTA by sending KYC documents in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms, which are available on <https://www.kfintech.com/sites/default/files/FinancialPerformanceandOtherInformation.pdf> and the Company's website at www.dixonindia.com/ or on the website of the RTA at <https://rtat.kfintech.com/customer-services/iscfclarform.aspx> and submit the physical documents to the Company's RTA i.e. Kfintech Technologies Limited at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India-500032 along with relevant documents.
- **For shares in electronic mode:** Register/update the details in your demat account as per the process advised by the Depository Participant.

5. **Tax on Dividend-** Members are also informed that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, deduction of tax at source is applicable on dividend payments. The tax is to be deducted at the rate of 10% (Ten per cent) on the basis of the amount of payment of Dividend. To avoid benefit of non-deduction of tax, shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H by submitting documents through E-mail to Company's RTA at enwardr@kfintech.com or <https://rtat.kfintech.com/form15g/> or to the Company at investorrelations@dixonindia.com.

6. The instructions on the process of voting, including the manner in which Members holding shares in dematerialized form, physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, will be provided as a part of the Notice of the 32nd AGM.

In case of any query, a member may contact the Company at investorrelations@dixonindia.com or to the Registrar and Share Transfer Agent at investorrelations@rtat.kfintech.com or at 020-309 4091.

मणिभवनना होम फाइनर्स इंडिया प्राइव्ट लिमिटेड 

परिशिष्ट IV नियम 8(3) कच्चा सूचना (अवल संपत्ति के लिए)

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) धारा के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्गीकृत के प्राधान्यों के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पिछले धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के अनुपालन में मणिभवनना होम फाइनर्स इंडिया प्रा. लि. (यहां के बाद "प्रभूधिकरण" के रूप में संदर्भित) एमपीएचएफ, जिसे विधिवत दोस्र सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.08.2021 के तहत प्राप्तिशक्त किया गया है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उद्देश्य के लिए, इसका पंजीकृत कार्यालय दसरी मंजिल, एन-2, लाथिय एसएसडी मार्ग-1, 60 ई. नं० दिल्ली-110049 के प्रमुख अधिकारी ने उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से सात (7) के भीतर लागू-प्रभावी व अन्य शुक्तों के सहित सूचना में वर्णित शर्तों का भुगतान करने के लिए निम्नादिशित (ऋणी) व (सह-ऋणी) को बुलाने के लिए मांग सूचना जारी की थी। ऋणी शर्तों का भुगतान करने में असफल एवं, एतदुपरा ऋणी और संवेधानाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोध्यास्थानी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पिछले उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अंतर्गत ओर प्रवर्तन शक्तियों के अनुपालन में ऋणी नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे वर्णित तिथि अन्सार कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और संवेधानाधारण को एतदुपरा नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का साथ किया गया कोई भी लेन-देन बाध्य व्यूज व अन्य शुक्तों पर एमपीएचएफ के प्रभार का विषय होगा। ऋणी को यथानु प्रतिभूति संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपरोक्त समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राधान्यों के लिए आमंत्रित है।

<p>श्रीगुरु / सार-श्रुति गार्हपत्य का नवमा व श्राद्धः श्रीगुरु साधु यादव, श्री सुमित यादव व श्री बाबू / रास यादव निवासी : गांव सूचना की तिथि : २८ मई, २०२५ ऋषण खाता सं. H.L000000000106९३ गांव सूचना की राशि : रु. २८८९४९४.६३ - ३१.०५.२०२५ तक असुरण संपत्ति का विवरण : संपत्ति विवरण संपत्ति विवरण संपत्ति विवरण नांग नामा नं. १०४ / ३० मई नं. १५५ / १०४ के सभी ग्राम व शेख सोसरी ग्राम में कई बंगला, तहसील व जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड २४८००१। या. १४८.६४ ग्राम यादौ, सीमा निम्नानुसार : पूर्व : ३८.६ फीट की चंद की संपत्ति, पश्चिम : ३४' सकारी की संपत्ति, उत्तर : ४२' अरुण कालस की संपत्ति, दक्षिण : १२' खाता इसके बाद फकीर चंद की संपत्ति ४०'</p>	<p>लिया गया कक्का २८.०५.२०२५ देहरादून</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> निर्नांक : ३०.०८.२०२५ स्थान : देहरादून प्राधिकृत अधिकारी मणिभयनम होम फाइनेंस डी.आ. लि. </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



HINDUJA
HOUSING FINANCE

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निर्वाहक कार्यालय :- 167-169, विदर्भ नगर, आगरा रोड, बंगला, बंगला- 600015,
काठियावाड़ :- 405, प्रभा नगर, माहादजी शिंदे पार्क, बंगला-4, वेरानी,
महाराष्ट्र-201019 ईमेल :- action@hindujahousingfinance.com

आवासपट्टेन - अतिथि वार्डिग, एक्सेस - अरुण मोहनजी
सौराष्ट्र - सुव वशिष्ठ - मोनालिसा फोन 8802678651

[illegible]

MegaCorp
मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड
CIN - L65100DL1985PLC092375
पंजीकृत कार्यालय: 62, उपरी भूतल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III, आई दिल्ली - 110020
फोन: +91-11-46557134, ई-मेल: info@megacorppltd.com,
वेबसाइट: megacorppltd.com

40वीं वार्षिक आम सभा (AGM) का नोटिस

- सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024, साथ ही सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023, 10/2022, 21/2021, 14/2020, 17/2020, 20/2020 जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं तथा भारतीय प्रतियुक्ति और विनियम बोर्ड द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/ CIR/24/2024/133 तथा इस विषय पर पहले जारी किए गए परिपत्रों (जिसे आप सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाएगा) के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 40वीं वार्षिक साधारण बैठक ("AGM") सम्पन्न, 29 सितंबर, 2025 को अपराह्न 02:30 बजे भारतीय मानक समयानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC")/अथवा ऑडियो विजुअल माध्यम ("OAVM") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस बैठक को कंपनी के वजीकृत कार्यालय में आयोजित करने जाएगा और यह कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतियुक्ति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अधिनियम) विनियम, 2015 ("SEBI LODR विनियम") एवं परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, ताकि 40वीं AGM की सूचना में निर्धारित कार्यो पर विचार किया जा सके।
- परिपत्रों के अनुपालन में, AGM का नोटिस एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटिओ के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते अपडेट/वजीकृत करें ताकि AGM का नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जा सके। AGM का नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (<https://megacorppltd.com>) एवं स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन सदस्यों के ई-मेल पते वजीकृत नहीं हैं, उनके पते पर वार्षिक रिपोर्ट का वेब-लिंक युक्त पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा।
- वे सदस्य जिनके पास 22 सितंबर, 2025 की स्थिति में शेयर हैं, वे मतदान हेतु पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST) से रविवार, 28 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST) तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ई-वोटिंग सुविधा बंद हो जाएगी। AGM में VC/OAVM के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने AGM से पहले रिमोट ई-वोटिंग कर ली होगी, वे AGM में उपस्थित होते ही समेत हैं, लेकिन पत्र मतदान नहीं कर पाएंगे। AGM नोटिस के भाग में रिमोट ई-वोटिंग एवं AGM में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।
- ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट करने की प्रक्रिया:**
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपना ई-मेल पता अपडेट करके भीतिक मुफुग लिमिटेड भारतीय प्रतियुक्ति कंपनी के उम्मीदवार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, MUFG International Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, नगर सवित्री मार्केट, जयपुरगढ़, नई दिल्ली-110058 (फोन: 011-494411000, ई-मेल: delhi.in@nmpms.mufg.com) को लिखकर ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करावा सके।
- रिमोट ई-वोटिंग / AGM में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की प्रक्रिया:**
i) कंपनी अपने सदस्यों को MUFG International Private Limited (RTA) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") की सुविधा प्रदान कर रही है। डिफिट पत्र में प्रतियुक्ति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य अपने डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागी खातों से ई-वोटिंग कर सकते हैं। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पते डिफिट खातों में अपडेट करें ताकि वे ई-वोटिंग का लाभ उठा सकें।
ii) AGM में भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। AGM में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने AGM से पहले रिमोट ई-वोटिंग नहीं की है और अन्यथा मतदान के पात्र हैं, वे AGM में मतदान कर सकेंगे।
iii) रिमोट ई-वोटिंग एवं AGM में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया AGM नोटिस में उपलब्ध होगी।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे AGM नोटिस (वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध) को ध्यानपूर्वक पढ़ें जिसमें AGM, रिमोट ई-वोटिंग/ AGM में ई-वोटिंग एवं संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षरित -
(शाश्वत चौधरी)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्टूबर, 2025

AFS727020

[illegible][illegible][illegible]

Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

#UNITY Small Finance Bank **युनिटी स्माल फाइनेंस बैंक**

[illegible]

	ग्रन्थ खाला विवरण	प्रतिभूत आसलियां
1.	<p>क-जंदाई (तें) का नाम:</p> <p>1) एमोल्लु (कजंदार)</p> <p>2) इंडिया (कजंदार) (सह-कजंदार एवं बंशककर्ता)</p> <p>3) गौरा माहेश्वरी (सह-कजंदार)</p> <p>स्वीकृत तिथि: 30/11/2023</p> <p>ग्रन्थ खाला संख्या: -</p> <p>USFBDLLOAN0000005013975</p> <p>ग्र. सं. 62, 87, 756, 00/-</p> <p>एपीएल तिथि: 02/08/2025</p> <p>मांग सूचना तिथि: 08/08/2025 (12/08/2025 को भेजा गया)</p> <p>मांग सूचना राशि: 07/08/2025 तक</p> <p>ग्र. 62, 10, 795.52/- और व्याज एवं अन्य शुल्क</p>	<p>अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा अनधिकृत कालोनी, गांव पुर कलां, दुध विहार कालोनी, केज-1 और II, दिल्ली में स्थित, भूला और प्रचुर तल का क्षेत्रफल 83.61 बार् मीटर, निर्मिता मकान संख्या 49/-, हासरा संख्या 66/6, दिल्ली में स्थित है और इस्का सीमा इस प्रकार है: सीमाएं (बंक/बंकी/दस्तावेज के अनुसार): उत्तर संपत्ति, पश्चिम: अन्य संपत्ति, उत्तर: गली 10 फीट, दक्षिण: सड़क 20 फीट।</p>
2.	<p>क-जंदाई (तें) का नाम:</p>	<p>केज-1 और II/ओरिण्टल मूखंड का पूरा हिस्सा,</p>

1) जे के मध्य स्थाने इन्डोनेयस टेक्नोलॉजी प्रवाइडर लिमिटेड (कजस्टन)

2) चउद प्रप्रायटरी (सह-कजस्टन अथे चयधककर्ता)

3) मजुवतिया एम (सह-कजस्टन)

न्यूक्लियर लिमिटेड: 15/01/2024

गुजरा खाना संस्था

USFBDLEOAN000005014795

संस्था का. नं. 1,51,86,424.00/-

एनपीए लिमिटेड: 02/08/2025, माग नुसुना लिमिटेड:

09/08/2025 (16/08/2025 को भेजा गया)

माग नुसुना लिमिटेड: 07/08/2025 तक

1, 553,34,520.43/- और व्याज नुसुन अथे अथुल शुल्क

क्षेत्रफल 3460 गांवा, खाना संस्था 272, खाना संस्था 159 और खाना संस्था 272, खाना संस्था 160, मजुवतिया एम पुराना पुराना हासना तहसील तहसील जिला हाउस गांवा में स्थित है और सीमाएं (क्षेत्र/विक्रि) देनायाथ के अनुसार): पूर्व: अन्य पवित्र, पश्चिम: सरकारी संपत्ति, उत्तर: सड़क 20 फीट, दक्षिण: अन्य संपत्ति

3.	<p>क) नाम :- ज.जी.के.के. विश्वा रमणि (कज्जदार) भारतवा सारवाय (मह-कज्जदार) सिर्वांन कज्जो सारवाय (मह-कज्जदार) अरुण सारवाय (मह-कज्जदार)</p> <p>व्योक्त तिथि: 31/01/2023 ग्राम खाला मण्डल :- USFBD/DELLOA0000005013276</p> <p>जन्म तिथि: 1,01,97,000,000 एम्पलर तिथि: 08/08/2025, मंग पुचना तिथि: 08/08/2025 (पुर्णिमा तिथि 16/08/2025) मंग पुचना तिथि: 07/08/2025 तक र, 1,01,53,245.22:- और व्याज र अरु शुल्क:-</p>	<p>अपल सारवा का सारवा नाम, 6100 मंग मीडर भेजकल वाले सारवा क्षेत्र म पिथल, कसारा सारा 75, खाता सारा 711 म सारवा, मंग सौरा 24, हारुल सारवा, जिल्ला, आर्य उत्तर मंडल म पिथल, अरुके वाट सारवा के काम म सारवा (पिथल) सारवा को सारवा पिथलमार है, सीमा (पिथल) जंज के अरुसार): पुं- अन्य का खेत, दलिया:- 10 मीटर, दलिया:- अन्य का खेत, दलिया:- 10 मीटर चौड़ी सड़क</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	कजईदर (न) का नाम: 1) जयवीर महाराज अर्धचंद्र (कजईदर) 2) जयवीर सिंह (राक-कजईदर ब्रह्मकर्मन) 3) अर्धचंद्र (कजईदर) 4) जयवीर सिंह (राक-कजईदर) संस्कृत लिपि: 26/05/2025 जपल नाम: USFBDDELLOAN00005010646 जपल नाम: १. 40.52,64.00/- समाधि तिथि: 02/08/2025 मांग पुनरा तिथि: 09/08/2025 (समाधि तिथि 16/08/2025) मांग पुनरा तिथि: 07/08/2025 तक शु. ३९,६१३,१३२.०२/- और ३२५ रु. का अन्धे अन्धे	अचल संस्कृत का समल मांग, पालि संख्या- ६२, डीकाल 289.६० ग्राम, कोट्टर संख्या- 732, डीकाल ११०-787, डीकाल संख्या- 301/8/2/11 -8/2/12 में से, बाका ग्रीष्म मांग में स्थित, प्रत्येक कालीनी, नगर निगम द्वारा पहलान की विमला संशुद्ध के अंतर्गत। संस्कृत को सीमाई विमला संशुद्ध - सीमाई (संस्कृत/काली) दस्तावेज के अनुसार। पुर्व - 88 फीट, पालि 1 पाछे - 88 फीट, 32, उतर - 29 फीट, 7.5 फीट, गली 24 फीट चौड़ी, दक्षिण - 29 फीट, 7.5 फीट, मालिकाना देवांगल
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. कजईर (र) का नाम:</p> <p>1) कलकण्डा पावर (कजईर/बन्धकजईर)</p> <p>2) दीपक कुमार (मह-कजईर)</p> <p>3) पंचेश आर (मह-कजईर)</p> <p>यूटिलिटी लिमिटेड: 28/02/2023</p> <p>अज्ञात संख्या:-</p> <p>USFBDELLOA000005008086</p> <p>अज्ञात तिथि: 12.07.822.00/-</p> <p>एम्पलीकैड तिथि: 08/08/2025</p> <p>माह सूचना तिथि: 09/08/2025</p> <p>(प्रतिपत्ति 16/08/2025)</p> <p>माह सूचना तिथि: 07/08/2025 तक र. 12,71,019.87</p> <p>और ख्यात एवं अन्य शुल्क</p>	<p>आवसीय भूखंड का सम्पत्ति भाग भाग जिसका माह नुसार 40 फीट, पश्चिम में 40 फीट और उत्तर में 56 फीट 3 इंच, दक्षिण में 56 फीट 3 इंच है, कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग गज वा 209.02 वर्ग मीटर भूमि खाली संख्या 316 पन्ना, ग्राम छात्रवा पावर, परगना एवं तहसील-सिकंदरगढ़, जिला-बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 203205 में स्थित और सीमाएं:- पूर्व-सावनीर को कुम्भी पन्ना, पश्चिम- पन्ना 15 चौड़ा, उत्तर- राजा को कुम्भी पन्ना, दक्षिण- देवराज का घर</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. कर्जदारों का नाम</p> <p>1) गवजान एम (कर्जदार)</p> <p>2) बबाला (हल-कर्जदार एवं बंधककर्ता)</p> <p>रविवृत्ति तिथि: 31/10/2022</p> <p>ज्यापूत लाल मर्यादा :-</p> <p>USF6DELLA0000005005684 एवं</p> <p>USF6DELLA0000005005651</p> <p>ज्यापूत तिथि :- 1,133,000.00/- एवं</p> <p>र. 9,27,000.00/-</p> <p>एम्प्लॉय तिथि: 02/08/2025</p> <p>एम्प्लॉय तिथि: 09/08/2025</p> <p>(गैर निष्पत्ति 16/08/2025)</p> <p>एम्प्लॉय तिथि: 07/08/2025 तक</p> <p>र. 10,42,47,74.38 एवं 10,42,42,74.38 का नाम गवजान</p>	<p>संपत्ति अचल आवासीय संपत्ति का सभी भाग, क्षेत्रफल लगभग 109.82 वर्ग मीटर और 10 वर्ग मीटर 58.2 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल लगभग 168.02 वर्ग मीटर, वाई क्रमांक 17, खेकड़ा की नगर पालिका सीमा के भीतर, वर्तमान में, यह भवन नगर पालिका परियोजना खेकड़ा में मकान संख्या 612 और 613 पर पंजीकृत, पृष्ठ के लिए गृह कर रसीद का एक प्रति दी गई है, कच्चा खेकड़ा, तहसील खेकड़ा, जपनद धारापुत, उदर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिचय है :- श्री मजानी</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. 10/02/2024-22/02 और 23/02/2024 के बीच कुल 3</p>	<p>(कंजदर)। सीमांत-उत्तर : डांड 10 फीट थी, दक्षिण : अन्य की संपत्ति (संपत्ति का शेष भाग श्री श्री देवेराम का संतति) पुरतः श्री मोरे राम का मकान, पश्चिम : श्री पीतमराम का घर</p>
<p>7. कार्यवाही का नाम: 1) सार्वजन्य एस्टेजिज (कंजदर) 2) एच के एस्टेजिज (रह-कंजदर) 3) पवन कुमार (रह-कंजदर) 4) जयंत जी (रह-कंजदर) 5) जयंत जी (रह-कंजदर एवं अकान्ठराम) एनक्रीप तिथि: 27/06/2024 और 26/02/2025 और 20/07/2024 ब्रण खत संख्या:- -USFBDL.GC.LT.000001272 और</p>	<p>अलग संपत्ति का संतुष्टा पात्र अर्थात निर्मित संपत्ति संख्या श्री-59, भूमि क्षेत्रफल 145.0681) वर्ग मीटर, (नं. 173.3 वर्ग मी), छहरा संख्या 37, कंजदर/अकान्ठराम संख्या 2024/01/387 के अनुसार, पुरतक संख्या 1, खंड संख्या 867, पुरतक संख्या 141-154 पर, दिनांक 17.02.2024 को परसवार श्रीआइडर अरु लिम्बावरदर दिवली में, गैस सव्यदर</p>

<p>USFBDL6.CTLT000011228 और USFBDLMSME000000779</p> <p>ग्रहण तिथि: रु. 1,53,61,586.00/- और रु. 45,00,000.00/- और रु. 3,07,110.00/-</p> <p>एम्पलर तिथि: 02/08/2025</p> <p>मार्ग सूचना तिथि: 08/08/2025 (प्रेषित तिथि 12/08/2025)</p> <p>मार्ग सूचना राशि: 07/08/2025 तक रु. 2,04,48,935.84 और व्याज एवं अन्य शुल्क</p>	<p>दिल्ली-110042 की आवादी में स्थित और निम्नासुरत परिवर्द्ध- सोमार्थ (संयोजकी दस्तावेज के अनुसार): पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: - सड़क 30 फीट चौड़ी, उत्तर: - सड़क 80 फीट चौड़ी, दक्षिण: - अन्य संपत्ति</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. कर्जदार (ओं) का नाम:	अयाल संगीत का सभी नाम निर्मित संगीत भूमि क्षेत्र के रूप में 110 वा. मी. पर 91.97
1) बीआईपी लेखनवा (कर्जदार)	मीटर, जिसका कर्जदार/गिज क्षेत्रफल 183.94
2) विमिन कुमार (सह-कर्जदार और बंधककर्ता)	वा. मीटर है, कारखाने संख्या: 580/48/US,
3) सुनील एन (सह-कर्जदार)	संगीत लेखन V580C में से, शाह के
4) कृष्ण पाथल (सह-कर्जदार)	अनुसार और अंतिम मिलन तक निर्माण के
स्वीकृत तिथि: 05/07/2024 और 15/08/2024	अधिकार के कारण, मौजूदा गैर के क्षेत्र में गली
ऊपर जाता संख्या:-	नंबर 3, अर्जुन मोहल्ला, वा. मी. मीटर,
USFBDEMLSE000002163	इस्का शाहदत, दिल्ली 110053 की अयादी
और USFBDEMLSE000003686	में स्थित, और निम्नानुसार सौंपा है:- सोमादा
ऊपर गति: र. 63.03,507.00/- और	की समस्त कर्जदारों की संख्या, यथार्थ:-
र. 3,00,00,00/-	शारी की संपत्ति, उत्तर:- गली 15 कीट पीछी,
प्राप्ति तिथि: 02/08/2025	राज्य:- दूसरी की संपत्ति

माग सूचना तिथि: 08/08/2025
(रपित तिथि 10/08/2025)
माग सूचना तिथि: 07/08/2025 तक
प. 67,72,486.94/- और ख्या एच अन्य शुल्क

60 (साठ) तिनी की अवधि के भीतर चुका देय राशि चुकाने में विफल रहने के मामले में, अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उदरगत प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवर्तित करने के लिए वाय्य होगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आगू इससे संबंध प्रस्तुत विवरणों भी प्रशिक्षण संस्था का निदान करने में स्थापना/निर्माण से प्रशिक्षण है, जहाँ यह बिक्री, पुंन या अन्यथा के माध्यम से हो। इस प्रावधानों के अंतर्गत की उल्लंघन एक अपराध है और अधिनियम के तहत दोषीन है।

साथ ही, अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उल्लेख्य (एच) यह पाठ्य को इसी मोर्चे हस्ताक्षरकों से किसी भी प्रकार विवाद में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान दें: **हस्ता. (अधिकृत प्रबंधक)**
तिथि: 04/08/2025
महोदय, **महोदय, महोदय, महोदय**

By Order of the Board
For Dixon Technologies (India) Limited
Sd/-
Place: Noida
Aashish Kumar
Chief Legal Counsel & Group Company Secretary
Dated: 29th August, 2025

मैगा कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षरित/-
(शाश्वत चौधरी)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ACS72020

बीएसई तथा एनएसई को सूचित किया जाएगा एवं उनकी वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगा।

कृते विपुल लिमिटेड
हस्ता/-
प्रीयुष बैरागी
कंपनी सचिव एवं अनुराधान अधिकारी

कर्मचारी स्थानांतरित करने से प्रतिरोध है, चाहे वह बिक्री, पट्टा या अन्यथा के माध्यम से हो। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन एक अपराध है और अधिनियम के तहत दंडनीय है।

मांग सुचना की प्रतिक्रियाहस्ताशक्ती के पास उपलब्ध है तथा कर्जदार(गण) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः दिल्ली

दिनांकः ३०/०८/२०१५

हस्ता/- (अधिकृत प्राधिकारी)
उपरी गॉल्ड फायरेन्स बैंक लिमिटेड